

Model Question Paper (आदर्श प्रश्न पत्र)

Class (कक्षा) : 10+1

Subject : Accountancy (लेखाशास्त्र)

Session (सत्र) : 2026-27

TIME : 3 Hours

MM = 80

General Instructions (सामान्य निर्देश)

1. This question paper is divided into five parts: Part-A, Part-B, Part-C, Part-D and Part-E.
यह प्रश्न-पत्र पाँच भागों में बाँटा गया है : भाग-ए, भाग-बी, भाग-सी, भाग-डी तथा भाग-ई।
2. Part-A carries 16 marks (MCQ), Part-B carries 18 marks, Part-C carries 12 marks, Part-D carries 4 marks and Part-E carries 30 marks. Total No of questions will be 36.
भाग-ए 16 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग-बी 18 अंकों का, भाग-सी 12 अंकों का, भाग-डी 4 अंकों का तथा भाग-ई 30 अंकों का होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 36 होगी।
3. All questions are compulsory. However, internal choice has been provided in some questions, attempt only ONE option where choice is given.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ आंतरिक विकल्प दिया गया है वहाँ केवल एक ही प्रश्न हल करें।
4. For 2-marks questions: 40-50 words; for 3-marks questions: 80-120 words; for 4-marks questions: 130-180 words; for 5-marks questions: 180-220 words.
2 अंक के प्रश्न के लिए 40-50 शब्द, 3 अंक के लिए 80-120 शब्द, 4 अंक के लिए 130-180 शब्द तथा 5 अंकों के लिए 180-220 शब्द निर्धारित किये गए हैं।
5. Candidates are required to give answers in their own words as far as possible.
परीक्षार्थी जहाँ तक सम्भव हो सके अपने ही शब्दों में उत्तर दें।
6. This paper strictly follows: Easy 35% | Moderate 40% | Difficult 25% and Knowledge 20% | Understanding 30% | Application 30% | Skill 20%.
यह प्रश्न-पत्र सख्ती से अनुसरण करता है: सरल 35%, औसत 40%, कठिन 25% तथा ज्ञान 20%, समझ 30%, अनुप्रयोग 30%, कौशल 20%।

Part-A

भाग-ए

Multiple Choice Questions

16 x 1 = 16

बहुविकल्पीय प्रश्न

Choose the correct alternative from the following four alternatives :

निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें:

- Q1.** Which of the following BEST describes the primary objective of Accounting ?
निम्नलिखित में से कौन-सा लेखांकन के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है ?
- (A) To assess the tax liability of the business
व्यवसाय की कर देयता का मूल्यांकन करना
- (B) To provide financial information useful for decision-making
निर्णय लेने के लिए उपयोगी वित्तीय सूचना प्रदान करना
- (C) To maintain inventory and stock records
सूची एवं स्टॉक अभिलेख बनाए रखना
- (D) To Calculate the cost of production
उत्पादन की लागत की गणना करना
- Q2.** In Accounting, a person to whom the business owes money is called a :
लेखांकन में, वह व्यक्ति जिसे व्यवसाय धन देता है, कहलाता है :
- (A) Debtor (देनदार) (B) Creditor (लेनदार)
(C) Proprietor (स्वामी) (D) Investor (निवेशक)

Q3. Which accounting concept requires that revenue should be recognised only when it is actually earned ?
कौन-सी लेखांकन अवधारणा के अनुसार राजस्व को तभी मान्यता दी जानी चाहिए जब वह वास्तव में अर्जित हो जाए ?

- (A) Going Concern Concept (चालू व्यापार अवधारणा)
- (B) Consistency Concept (स्थिरता अवधारणा)
- (C) Realisation Concept (प्राप्ति अवधारणा)
- (D) Matching Concept (मिलान अवधारणा)

Q4. Accounting Standards in India are issued by :

भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं :

- (A) Reserve Bank of India (भारतीय रिज़र्व बैंक)
- (B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)
- (C) Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान)
- (D) Ministry of Finance (वित्त मंत्रालय)

Q5. Assertion : According to materiality concept of accounting, only transactions those affect financial decision making should be recorded in the accounting books.

Reason : Materiality concept ensures that insignificant transactions are omitted from financial statements to avoid confusion.

- (A) Assertion is correct and reason is the right explanation of assertion.
- (B) Assertion is correct, but reason is not the right explanation of assertion.
- (C) Assertion is correct, but reason is incorrect.
- (D) Assertion is incorrect, but reason is correct.

कथन (Assertion): लेखांकन के भौतिकता के सिद्धांत के अनुसार लेखांकन की पुस्तकों में उन्हीं लेन-देनों को लिखना चाहिए, जो वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

कारण (Reason): भौतिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरणों में भ्रम की स्थिति को टालने के लिए अनावश्यक लेन-देनों को छोड़ देना चाहिए।

- (A) कथन सही है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (B) कथन सही है, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।
- (D) कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

Q6. Assertion : The double entry system provides a complete record of financial business transactions.

Reason : With double entry system financial business transactions are recorded only in one account.

- (A) Assertion is correct and reason is the right explanation of assertion.
- (B) Assertion is correct, but reason is not the right explanation of assertion.
- (C) Assertion is correct, but reason is incorrect.
- (D) Assertion is incorrect, but reason is correct.

कथन (Assertion): दोहरी लेखा प्रणाली वित्तीय व्यावसायिक लेन-देनों का पूर्ण रिकॉर्ड रखती है।

कारण (Reason): दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार वित्तीय व्यावसायिक लेन-देन केवल एक खाते में रिकॉर्ड किये जाते हैं।

- (A) कथन सही है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (B) कथन सही है, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।
- (D) कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

- Q7.** A business has Assets = ₹4,80,000 and Liabilities = ₹1,35,000. What is the Capital?
एक व्यवसाय की सम्पत्तियाँ = ₹4,80,000 तथा देनदारियाँ = ₹1,35,000 हैं। पूँजी कितनी होगी?
(A) ₹ 3,45,000 (B) ₹ 6,15,000 (C) ₹ 1,35,000 (D) ₹ 4,80,000
- Q8.** Goods worth ₹ 20,000 purchased on credit from Ramesh. In the Journal entry, the account to be DEBITED is :
रमेश से ₹ 20,000 का माल उधार खरीदा गया। जर्नल प्रविष्टि में कौन-सा खाता डेबिट किया जाएगा ?
(A) Ramesh's Account (रमेश का खाता) (B) Cash Account (रोकड़ खाता)
(C) Purchases Account (क्रय खाता) (D) Sales Account (विक्रय खाता)
- Q9.** Opening cash balance ₹12,000; Cash receipts during the month ₹38,000; Cash payments ₹29,500. Closing cash balance =
प्रारंभिक रोकड़ शेष ₹12,000; माह के दौरान रोकड़ प्राप्तियाँ ₹38,000; रोकड़ भुगतान ₹29,500 । अंतिम रोकड़ शेष =
(A) ₹ 20,500 (B) ₹ 17,500 (C) ₹ 50,000 (D) ₹ 8,500
- Q10.** Match the following items :
निम्नलिखित मदों का मिलान करें :

Column A (स्तम्भ-अ)	Column B (स्तम्भ-ब)
(a) Cash Book (रोकड़ बही)	(1) Arithmetical accuracy of books (पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता)
(b) Purchases Book (क्रय बही)	(2) Cash transactions only (केवल रोकड़ लेन-देन)
(c) Trial Balance (तलपट)	(3) Credit purchases of goods (माल की उधार खरीद)
(d) Bank Reconciliation Statement (बैंक समाधान विवरण)	(4) Difference between Cash Book and Pass Book (रोकड़ बही और पास बुक के बीच का अंतर)

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4 (B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-3, b-2, c-4, d-1 (D) a-2, b-1, c-4, d-3

- Q11.** Match the following items :
निम्नलिखित मदों का मिलान करें :

Column- I (खाना-I)	Column- II (खाना-II)
(a) Cheque issued, but not presented (चैक जारी किये पर प्रस्तुत नहीं किये)	(1) Added to passbook balance (पासबुक के शेष में जमा)
(b) Cheque deposited, but not credited (चैक जमा किये पर क्रेडिट नहीं हुए)	(2) Deducted from cashbook balance (रोकड़बही के शेष से घटाना)
(c) Bank charges (बैंक प्रभार)	(3) Deducted from passbook balance (पासबुक के शेष से घटाना)
(d) Cash deposited into the bank, directly (बैंक में सीधा जमा हुए)	(4) Added to cashbook balance (रोकड़बही के शेष में जमा)

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4 (B) a-4, b-2, c-1, d-3
(C) a-3, b-2, c-4, d-1 (D) a-2, b-1, c-4, d-3

- Q12.** A machine costs ₹ 1,20,000 with a residual value of ₹ 20,000 and a useful life of 10 years. Annual depreciation under Straight Line Method (SLM) = (एक मशीन का क्रय मूल्य ₹ 1,20,000 है, अवशिष्ट मूल्य ₹ 20,000 तथा उपयोगी जीवन 10 वर्ष है। सीधी रेखा विधि से वार्षिक हास =)
(A) ₹ 12,000 (B) ₹ 10,000 (C) ₹ 11,000 (D) ₹ 14,000

- Q13.** Purchases of ₹ 9,000 were wrongly entered in the Sales Book. Due to this error, the Net Profit of the business will be :
 ₹ 9,000 की खरीद गलती से विक्रय बही में दर्ज कर दी गई। इस त्रुटि के कारण व्यवसाय का शुद्ध लाभ होगा :
 (A) Overstated by ₹ 18,000 (₹ 18,000 से अधिक दर्शाया गया)
 (B) Understated by ₹ 18,000 (₹ 18,000 से कम दर्शाया गया)
 (C) Overstated by ₹ 9,000 (₹ 9,000 से अधिक दर्शाया गया)
 (D) No effect on profit (लाभ पर कोई प्रभाव नहीं)
- Q14.** Net Sales = ₹ 6,00,000; Opening Stock = ₹ 80,000; Purchases = ₹ 3,50,000; Closing Stock = ₹ 70,000; Direct Expenses = ₹ 30,000. Gross Profit = ?
 शुद्ध विक्रय = ₹ 6,00,000; प्रारंभिक स्टॉक = ₹ 80,000; क्रय = ₹ 3,50,000;
 अंतिम स्टॉक = ₹ 70,000; प्रत्यक्ष व्यय = ₹ 30,000। सकल लाभ = ?
 (A) ₹ 2,10,000 (B) ₹ 1,40,000 (C) ₹ 2,40,000 (D) ₹ 1,70,000
- Q15.** Gross Profit = ₹ 1,80,000; Office Expenses = ₹ 45,000; Selling Expenses = ₹ 25,000; Non-operating Income = ₹ 8,000. Net Profit =
 सकल लाभ = ₹ 1,80,000; कार्यालय व्यय = ₹ 45,000; विक्रय व्यय = ₹ 25,000;
 गैर-परिचालन आय = ₹ 8,000। शुद्ध लाभ =
 (A) ₹ 1,18,000 (B) ₹ 1,10,000 (C) ₹ 1,26,000 (D) ₹ 1,35,000
- Q16.** A company earns Net Profit of ₹ 5,00,000 and transfers 10% to General Reserve. The amount transferred to General Reserve is :
 एक कम्पनी का शुद्ध लाभ ₹ 5,00,000 है और वह 10% सामान्य संचय में स्थानांतरित करती है। सामान्य संचय में स्थानांतरित राशि है :
 (A) ₹ 4,50,000 (B) ₹ 50,000 (C) ₹ 5,00,000 (D) ₹ 55,00

Part-B भाग-बी

Very Short Answer Questions अति लघु-उत्तरीय प्रश्न

(MM = 9 × 2 = 18)

- Q17.** Define Accounting. State any TWO objectives of Accounting.
 लेखांकन को परिभाषित कीजिए। लेखांकन के कोई दो उद्देश्य बताइए।
- Q18.** Explain the following Accounting Concepts with examples :
 (i) Going Concern Concept (ii) Consistency Concept
 निम्नलिखित लेखांकन अवधारणाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए :
 (i) चालू व्यापार अवधारणा (ii) एकरूपता का सिद्धांत
- Q19.** What is a Sales Book? Draw its specimen format.
 विक्रय बही क्या है? इसका प्रारूप बनाइए।
- Q20.** What is a Trial Balance? State any TWO objectives of preparing a Trial Balance.
 तलपट क्या है? तलपट बनाने के कोई दो उद्देश्य बताइए।
- Q21.** Explain any TWO major causes of Depreciation.
 ह्रास के कोई दो प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए।
- Q22.** Distinguish between 'Revenue Reserve' and 'Capital Reserve' on any TWO bases.
 'आयगत संचय' तथा 'पूँजीगत संचय' में कोई दो आधारों पर अंतर स्पष्ट कीजिए।
- Q23.** What is meant by Financial Statements? State any TWO types of financial statements.

वित्तीय विवरणों से क्या अभिप्राय है? वित्तीय विवरणों के कोई दो प्रकार बताइए।

- Q24.** Distinguish between a Trading Account and a Profit & Loss Account on any TWO bases.
व्यापारिक खाते तथा लाभ-हानि खाते में कोई दो आधारों पर अंतर स्पष्ट कीजिए।
- Q25.** Explain the need for adjustments while preparing the Final Accounts of a business.
व्यवसाय के अन्तिम खाते बनाते समय समायोजनों की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।

Part-C
भाग-सी

Short Answer Questions

4 × 3 = 12

लघु-उत्तरीय प्रश्न

- Q26.** Explain the following Accounting Terms with suitable examples :
(i) Assets (ii) Liabilities (iii) Revenue
निम्नलिखित लेखांकन शब्दों को उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए :
(i) सम्पत्तियाँ (ii) दायित्व (iii) राजस्व
- Q27.** What are Accounting Standards? State any THREE objectives of Accounting Standards in India.
लेखांकन प्रमाण क्या हैं ? भारत में लेखांकन मानकों के कोई तीन उद्देश्य बताइए।
- Q28.** Prepare accounting equation from the following transactions
निम्नलिखित लेन-देनों का लेखांकन समीकरण बनाएं:

S. No.	Particulars / Transactions (विवरण / लेन-देन)	Amount (₹) (राशि)
1	Mohan started business with cash (मोहन ने नकद से व्यवसाय प्रारम्भ किया)	1,50,000
2	Purchased furniture on credit from Shyam (श्याम से उधार फर्नीचर खरीदा)	25,000
3	Sold goods (cost ₹18,000) for cash ₹26,000 (₹18,000 लागत का माल ₹26,000 नकद में बेचा)	26,000
4	Paid salaries in cash (वेतन नकद चुकाया)	7,000
5	Interest received in cash (रोकड़ में ब्याज प्राप्त किया)	1,000
6	Dividend paid on shares (अंशों पर लाभांश चुकाया)	2,000
	Total	<u>2,11,000</u>

OR (अथवा)

Write any THREE limitations of Double Entry System of Accounting.
लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली की कोई तीन सीमाएँ लिखिए ।

- Q29.** CASE STUDY QUESTION (प्रकरण अध्ययन प्रश्न)
(Attempt ANY ONE of the following question) :
निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न का हल कीजिए ।

Case Study (i) (प्रकरण-1) — Depreciation (ह्रास)

M/s Lakshmi Enterprises purchased a Machine on 1st April 2024 for ₹1,80,000. They decided to charge depreciation @ 10% per annum under the Straight Line Method. At the end of the second year, the machine became technologically obsolete and was sold for ₹1,35,000. The company also maintains a General Reserve and transfers 8% of Net Profit (₹75,000) to it every year.

मैसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने 1 अप्रैल 2024 को ₹1,80,000 में एक मशीन खरीदी। उन्होंने सीधी रेखा विधि से 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाने का निर्णय किया। दूसरे वर्ष के अंत में मशीन तकनीकी रूप से पुरानी हो गई और ₹1,35,000 में बेच दी गई। कम्पनी सामान्य संचय भी रखती है और प्रत्येक वर्ष शुद्ध लाभ (₹75,000) का 8% उसमें स्थानांतरित करती है।

Answer the following :

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए :

(A) Calculate the annual depreciation amount on the machine.

मशीन पर वार्षिक ह्रास राशि की गणना कीजिए।

(B) What is the book value of the machine at the end of Year 2 ?

वर्ष 2 के अंत में मशीन का पुस्तक मूल्य क्या है?

(C) Calculate the amount transferred to General Reserve.

सामान्य संचय में स्थानांतरित राशि की गणना कीजिए।

OR (अथवा)

Case Study (ii) (प्रकरण-ii) — Financial Statements (वित्तीय विवरण)

Riya runs a stationery business. At the end of Financial Year 2025-26, the following details are available : Net Sales ₹ 5,20,000; Cost of Goods Sold ₹ 3,10,000; Office Salaries ₹ 48,000; Rent ₹ 22,000; Advertisement ₹ 15,000; Interest on Bank Loan ₹ 9,000; Discount Received from Suppliers ₹ 5,500.

रिया एक स्टेशनरी व्यवसाय चलाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं : शुद्ध विक्रय ₹ 5,20,000; बेची गई वस्तुओं की लागत ₹ 3,10,000; कार्यालय वेतन ₹ 48,000; किराया ₹ 22,000; विज्ञापन ₹ 15,000; बैंक ऋण पर ब्याज ₹ 9,000; आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त छूट ₹ 5,500।

Answer the following :

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए :

(A) Calculate the Gross Profit of Riya's business.

रिया के व्यवसाय का सकल लाभ परिकलित कीजिए।

(B) Calculate the total Operating Expenses for the year.

वर्ष के कुल परिचालन व्यय की गणना कीजिए।

(C) Calculate the Net Profit for the year 2025-26.

वर्ष 2025-26 का शुद्ध लाभ परिकलित कीजिए।

Part-D

भाग-डी

Long Answer Question

1 × 4 = 4

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

Q30. From the following Trial Balance extract of M/s Patel Brothers, prepare a Trading Account for the year ended 31st March 2026 :

मैसर्स पटेल ब्रदर्स के निम्नलिखित तलपट अंश से 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक खाता तैयार कीजिए ।

Name of Account (खाते का नाम)	Dr. Amount (₹) (डेबिट राशि)	Cr. Amount (₹) (क्रेडिट राशि)
Opening Stock (प्रारंभिक स्टॉक)	55,000	—
Purchases (क्रय)	2,10,000	—
Purchase Returns (क्रय वापसी)	—	14,000
Sales (विक्रय)	—	3,09,500
Sales Returns (विक्रय वापसी)	9,500	—
Direct Wages (प्रत्यक्ष मजदूरी)	26,000	—
Carriage Inward (आंतरिक भाड़ा)	7,000	—
Factory Rent (कारखाना किराया)	16,000	—
Total	<u>3,23,500</u>	<u>3,23,500</u>

Additional Information (अतिरिक्त सूचना) : Closing Stock as on 31st March 2026 = ₹ 65,000.
31 मार्च 2026 को अंतिम स्टॉक = ₹ 65,000।

Part-E
भाग-ई

Long Answer Questions

6 × 5 = 30

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

Q31. Journalise the following transactions in the books of M/s Sharma Traders for April 2026 :
मैसर्स शर्मा ट्रेडर्स की पुस्तकों में अप्रैल 2026 के निम्नलिखित लेन-देनों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

Date (दिनांक)	Particulars (विवरण)	Amount (₹) (राशि)
2026 April 1	Started business with cash ₹2,00,000 and goods worth ₹60,000 (नकद ₹2,00,000 और ₹60,000 के माल से व्यवसाय प्रारम्भ किया)	2,60,000
April 5	Purchased machinery for cash (नकद में मशीनरी खरीदी)	45,000
April 9	Purchased goods from Ramesh on credit (रमेश से उधार माल खरीदा)	35,000
April 14	Sold goods to Suresh for cash (सुरेश को नकद माल बेचा)	28,000
April 20	Paid salaries to staff in cash (कर्मचारियों को नकद वेतन दिया)	9,000
April 25	Received commission by cheque (चेक द्वारा कमीशन प्राप्त)	4,000
April 30	Withdrew cash from business for personal use (व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से नकद निकाला)	6,000
April 30	Total	<u>3,87,000</u>

OR (अथवा)

Journalise the following special transactions in the books of M/s Gupta & Sons :
मैसर्स गुप्ता एण्ड सन्स की पुस्तकों में निम्नलिखित विशेष लेन-देनों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए ।

S. No.	Particulars (विवरण)
(a)	Goods worth ₹ 20,000 destroyed by fire. Insurance Company admitted a claim of ₹ 14,000. (आग से ₹ 20,000 का माल नष्ट हो गया। बीमा कम्पनी ने ₹ 14,000 का दावा स्वीकार किया।)
(b)	Bad debts of ₹ 6,000 recovered from Anil (previously written off as bad debt). (पहले डूबत ऋण के रूप में लिखे गए ₹ 6,000 अनिल से वापस प्राप्त हुए।)
(c)	Goods costing ₹ 10,000 distributed as free samples for advertisement. (₹ 10,000 लागत के माल को विज्ञापन हेतु मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित किया।)
(d)	Received ₹ 24,500 from Shyam in full settlement of his account of ₹ 25,000. (श्याम के ₹ 25,000 के खाते के पूर्ण निपटान में ₹ 4,500 प्राप्त हुए।)
(e)	Interest on capital credited ₹ 3,000; Interest on drawings charged ₹ 1,500. (पूँजी पर ब्याज क्रेडिट ₹ 3,000; आहरण पर ब्याज ₹ 1,500 लिया गया।)

Q32. Prepare double columnar cashbook for the month of August 2024, from the following information :

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अगस्त-2024 के लिए, दो खानों वाली रोकड़ बही तैयार करें ।

Date	Particulars/Transactions	Amt.in ₹
2024 Aug. 1	Cash in Hand (हस्तगत रोकड़)	15,000
	Cash at Bank (बैंक शेष)	10,000
Aug. 3	Paid insurance by cheque (चेक के द्वारा बीमे का भुगतान किया)	4,200
Aug. 9	Cash deposited into the bank (चेक बैंक में जमा किया)	1,200
Aug. 12	Cash received from Mohan (मोहन से रोकड़ प्राप्त किया)	5,000
Aug. 20	A cheque received and deposited into the bank same day (एक चेक प्राप्त किया और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया)	2,000
Aug. 31	Total	<u>37,400</u>

OR (अथवा)

Prepare double columnar cashbook for the month of May 2022, from the following information :

Date	Particulars/Transactions	Amt.in ₹
2022 May 1	Started business with cash (रोकड़ से व्यापार शुरू किया)	50,000
May 5	Sold goods and received cheque, deposited into the bank same day (बस्तुएं बेचीं, चेक प्राप्त किया और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया)	4,000
May 9	Sold goods and received cheque, but not deposited into the bank (बस्तुएं बेचीं और चेक प्राप्त किया, परन्तु बैंक में जमा नहीं किया)	3,000
May 15	Cheque received on 9 th May deposited into the bank (9 मई को चेक प्राप्त किया और उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया)	3,000
May 25	Cash is withdrawn from the bank for personal use (व्यक्तिगत खर्च के लिए बैंक से रोकड़ निकाला)	2,000
May 31	Total	<u>62,000</u>

Q33. Prepare a Bank Reconciliation Statement from the following information as on 31st March 2026 : (निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2026 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए ।)

S. No.	Particulars (विवरण)	Amount (₹) (राशि)
1	Balance as per Cash Book (Dr.) (रोकड़ बही के अनुसार शेष (Dr.))	32,400
2	Cheques deposited but not yet credited by bank (जमा किए गए चेक जो अभी बैंक द्वारा जमा नहीं)	8,500
3	Cheques issued but not yet presented for payment (जारी किए गए चेक जो अभी भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं)	5,200
4	Bank charges debited by bank but not entered in Cash Book (बैंक द्वारा बैंक प्रभार डेबिट, रोकड़ बही में दर्ज नहीं)	450
5	Interest on FD credited by bank, not recorded in Cash Book (सावधि जमा पर बैंक द्वारा ब्याज जमा, रोकड़ बही में दर्ज नहीं)	1,800
6	Direct payment by a customer into bank, not entered in Cash Book (ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में भुगतान, रोकड़ बही में दर्ज नहीं)	6,500
	Total	<u>54,850</u>

OR (अथवा)

Explain the causes due to which the balance of Cash Book does not agree with the balance of Pass Book.

उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण रोकड़ बही का शेष पास बुक के शेष से नहीं मिलता।

Q34. Rectify the following errors by passing necessary Journal entries. Also state the effect of each error on Net Profit :

आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ पास करके निम्नलिखित त्रुटियों को सुधारिए। प्रत्येक त्रुटि का शुद्ध लाभ पर प्रभाव भी बताइए :

S. No.	Transactions (लेन-देन)	Amount (₹) (राशि)
1	Purchases ₹ 14,000 were posted to Purchases Account as ₹41,000. (₹ 14,000 की खरीद को क्रय खाते में ₹ 41,000 के रूप में दर्ज किया गया।)	14,000
2	Salary paid ₹ 8,000 was debited to Rent Account. (₹ 8,000 का चुकाया गया वेतन किराया खाते में डेबिट किया गया।)	8,000
3	Goods sold to Ramesh ₹ 9,500 were not recorded anywhere in the books. (रमेश को ₹ 9,500 का माल बेचा गया लेकिन पुस्तकों में कहीं दर्ज नहीं किया।)	9,500
4	Furniture purchased for ₹ 22,000 was wrongly entered in the Purchases Book. (₹ 22,000 का फर्नीचर गलती से क्रय बही में दर्ज कर दिया गया।)	22,000
5	Returns Inward ₹ 4,200 were posted to the Returns Outward Account. (₹ 4,200) की विक्रय वापसी को क्रय वापसी खाते में दर्ज कर दिया गया।)	4,200
	Total	<u>57,700</u>

OR (अथवा)

The following errors were discovered AFTER the preparation of the Trial Balance. Rectify them through Suspense Account and prepare the Suspense Account :

निम्नलिखित त्रुटियाँ तलपट बनने के बाद पकड़ी गई। उचंती खाते के माध्यम से इन्हें सुधारिए तथा उचंती खाता भी बनाइए :

S. No.	Transactions (लेन-देन)	Amount (₹) (राशि)
1	Cash received from Suresh ₹ 8,400 was posted to his account as ₹ 4,800. (सुरेश से प्राप्त ₹ 8,400 नकद को उसके खाते में ₹ 4,800 दर्ज किया गया।)	8,400
2	Total of Purchase Book was short by ₹ 1,500. (क्रय बही का योग ₹ 1,500 कम था।)	1,500
3	Discount Allowed ₹ 600 was not posted to Discount Allowed Account. (दी गई छूट ₹ 600 को छूट दी गई खाते में पोस्ट नहीं किया गया।)	600
4	Cash paid to Priya ₹ 11,000 was not entered in her account. (प्रिया को चुकाया ₹ 11,000 नकद उसके खाते में दर्ज नहीं किया गया।)	11,000
	Total	<u>21,500</u>

Q35. On 1st April 2023, M/s Agarwal Enterprises purchased machinery for ₹2,60,000. Installation charges paid were ₹15,000. The machinery has an estimated useful life of 5 years and a residual value of ₹25,000. Prepare the Machinery Account for THREE years using the Straight Line Method. (Accounts are closed on 31st March each year.)

1 अप्रैल 2023 को मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज ने ₹2,60,000 में मशीनरी खरीदी। स्थापना शुल्क ₹15,000 चुकाया गया। मशीनरी का अनुमानित उपयोगी जीवन 5 वर्ष और अवशिष्ट मूल्य ₹25,000 है। सीधी रेखा विधि से तीन वर्षों का मशीनरी खाता बनाइए। (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को खाते बंद होते हैं।)

OR (अथवा)

A firm purchased a Vehicle on 1st October 2023 for ₹2,00,000. Depreciation is to be charged @ 20% per annum under the Written Down Value Method. Accounts are closed on 31st March each year. Prepare the Vehicle Account for the first THREE years.

एक फर्म ने 1 अक्टूबर 2023 को ₹2,00,000 में एक वाहन खरीदा। अवक्षयी अवशेष विधि से 20% प्रति वर्ष की दर से ह्रास लगाया जाना है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। प्रथम तीन वर्षों का वाहन खाता बनाइए।

Q36. From the following information, prepare a Profit & Loss Account and a Balance Sheet of M/s Saxena Traders for the year ended 31st March 2026 :

निम्नलिखित सूचनाओं से मैसर्स सक्सेना ट्रेडर्स का 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता तथा स्थिति विवरण बनाइए :

Name of Account (खाते का नाम)	Dr. (₹) (डेबिट)	Cr. (₹) (क्रेडिट)
Gross Profit b/d (सकल लाभ आगे लाया)	—	1,65,000
Salaries (वेतन)	90,000	—
Rent & Rates (किराया एवं कर)	51,500	—
Advertisement Expenses (विज्ञापन व्यय)	9,500	—
Bad Debts (डूबत ऋण)	6,000	—
Discount Allowed (दी गई छूट)	2,500	—
Commission Received (कमीशन प्राप्त)	—	7,500
Interest on Investments (निवेश पर ब्याज)	—	4,000
Sundry Debtors (विविध देनदार)	78,000	—
Sundry Creditors (विविध लेनदार)	—	48,000
Cash in Hand (हस्तगत रोकड़)	21,000	—
Bank Balance (बैंक शेष)	42,000	—
Capital (पूँजी)	—	2,00,000
Furniture & Fixtures (फर्नीचर एवं जुड़नार)	72,000	—
Closing Stock (अंतिम स्टॉक)	52,000	—
Total	<u>4,24,500</u>	<u>4,24,500</u>

Adjustments (समायोजन) : (i) Outstanding Salaries ₹6,000 (बकाया वेतन ₹6,000)

(ii) Prepaid Rent ₹2,000 (अग्रिम किराया ₹2,000)

(iii) Depreciate Furniture @ 10% p.a. (फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाएँ)

Syllabus Regarding 10+1 Accountancy (Financial Accounting-I) 2026-27

Unit wise distribution of marks

MM= 80

Design of Question Paper (Blue Print), MCQ=16 (Part-A=13 + Part-B=3)

Part-A MM-59 (Financial Accounting-I)

Unit	Name of the units	MCQ 1 Mark Question	2 Marks Question	3 Marks Question	4 Marks Question	5 Marks Question	Total Marks Assigned
I	Introduction to accounting	2	1 T	1 T	-	-	7
II	Theory base of accounting	2	1 T	1 T	-	-	7
III	Recording of business transactions-I	2	-	1 N OR T	-	1 N OR T	10
IV	Recording of business transactions-II	2	1 T	-	-	1 N OR N	9
V	Bank Reconciliation Statement	1	-	-	-	1 N OR N	6
VI	Trial balance and rectification of errors	2	1 T	-	-	1 N	9
VII	Depreciation, reserve and provisions	2	2 T	-	-	1 N OR N	11
	Total of Part-A	13X1=13	6X2=12	3X3=9	-	5X5=25	59
	Part-B MM-18 (Final Accounts)						
VIII	Financial statements-I	1	2 T	-	1 N	-	9
IX	Financial statements-II	2	1 T	-	-	1 N	9
	Case Study Question (Unit-VII, VIII & IX)	-	-	1	-	-	3
	Total of Part-B	3	3X2=6	1X3=3	1X4=4	1X5=5	21
	Grand Total of Part-A and Part-B	16X1=16	9X2=18	4X3=12	1X4=4	6X5=30	80
	Internal Assessment						20
	Total						<u>100</u>

Course Contents

Note:

1. N stands for numerical and T for theory.
2. N/T means that question of numerical or theory may be set in the question paper.
3. N OR T stands for choice in the question, i.e. student have to attempt only one question out of two.

Designing of Question Paper (Blue Print) 2026-27

Class=10+1

Subject: Accountancy

MM=80

Part-A MM= 59

Units	Lessons	1 Mark Question (MCQ)	2 Marks Question	3 Marks Question	4 Marks Question	5 Marks Question	Total Marks Assigned
(I) Introduction to Accounting	(i) Accounting: Meaning & Objectives	1	1 T	-	-	-	3
	(ii) Basic Accounting Terms	1	-	1 T	-	-	4
(II) Theory Base of Accounting	(iii) Accounting Concepts & Principles	1	1 T	-	-	-	3
	(iv) Accounting Standards	1	-	1 T	-	-	4
(III) Recording of Business Transactions-I	(v) Process & Base of Accounting System, Double Entry System (vi) Accounting Equation	1	-	1 N OR T	-	-	4
	(vii) Journal : Meaning & Objectives	1	-	-	-	1 N OR N	6
	(viii) Cash Book	1	-	-	-	1 N OR N	6
(IV) Recording of Business Transactions-II	(ix) Other Subsidiary Books	-	1 T	-	-	-	2
	(x) Ledger	1	-	-	-	-	1
(V) Bank Reconciliation Statement	(xi) Bank Reconciliation Statement	1	-	-	-	1 N OR T	6
(VI) Trial Balance & Rectification of Errors	(xii) Trial Balance & Errors	1	1 T	-	-	-	3
	(xiii) Rectification of Errors	1	-	-	-	1 N OR N	6
(VII) Depreciation, Reserve & Provisions	(xiv) Depreciation	1	1 T	-	-	1 N OR N	8
	(xv) Reserve & Provisions	1	1 T	-	-	-	3
Total of Part-A		1X13 =13	6X2 =12	3X3 =9	-	5X5 =25	59

Part-B (MM = 21)							
(VIII) Financial Statements-I	(xvi) Financial Statements-I	1	2 T	-	1 N	-	9
(IX) Financial Statements-II	(xvii) Financial Statements-II	2	1 T	-	-	1 N	9
Case Study Question (Unit-VII, VIII & IX) (Depreciation, Reserve & Surpluses, Financial Statements-I & II)		-	-	1 N OR N	-	-	3
		-	-	-	-	-	-
Total of Part-B		1X3 = 3	3X2 =6	1X3 =3	1X4 =4	1X5 =5	21
Total		16X1=16	9X2=18	4X3=12	1X4=4	6X5=30	80
Internal Assessment		-	-	-	-	-	20
Grand Total		-	-	-	-	-	<u>100</u>

Designing of Model Question Paper

Class: 10+1

Subject: Accountancy

Part-A Multiple Choice Questions (Objective Type Questions) (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) 1 Mark 16X1= 16

Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
I	(i)	Accounting: Meaning & Objectives	1	1	1
	(ii)	Basic Accounting Terms	1	1	1
II	(iii)	Accounting Concepts and Principles	1	1	1
	(iv)	Accounting Standards	1	1	1
III	(v)	Process & Base of Accounting, Double Entry System	1	1	1
	(vi)	Accounting Equation	-	-	-
	(vii)	Journal : Meaning & Objectives	1	1	1
IV	(viii)	Cashbook	1	1	1
	(ix)	Other Subsidiary Books	-	-	-
	(x)	Ledger	1	1	1
V	(xi)	Bank Reconciliation Statement	1	1	1
VI	(xii)	Trial Balance & Errors	1	1	1
	(xiii)	Rectification of Errors	1	1	1
VII	(xiv)	Depreciation	1	1	1
	(xv)	Reserve & Surpluses	1	1	1
VIII	(xvi)	Financial Statements-I	1	1	1
IX	(xvii)	Financial Statements-II	2	1	2
Total		16X1= 16	16	1	16

Part-B (Very Short Answer Questions) (अति लघु-उत्तरीय प्रश्न) 2 Marks (दो अंक) 9X2= 18

Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
I	(i)	Accounting: Meaning & Objectives	1	2	2
	(ii)	Basic Accounting Terms	-	-	-
II	(iii)	Accounting Concepts and Principles	1	2	2
	(iv)	Accounting Standards	-	-	-
III	(v)	Process & Base of Accounting, Double Entry System	-	-	-
	(vi)	Accounting Equation	-	-	-
	(vii)	Journal : Meaning & Objectives	-	-	-
IV	(viii)	Cashbook	-	-	-
	(ix)	Other Subsidiary Books	1	2	2
	(x)	Ledger	-	-	-
V	(xi)	Bank Reconciliation Statement	-	-	-
VI	(xii)	Trial Balance & Errors	1	2	2
	(xiii)	Rectification of Errors	-	-	-
VII	(xiv)	Depreciation	1	2	2
	(xv)	Reserve & Surpluses	1	2	2
VIII	(xvi)	Financial Statements-I	2	2	4
IX	(xvii)	Financial Statements-II	1	2	2
Total		-	9	2	18

Part-C (Short Answer Question) (लघु उत्तरीय प्रश्न) 3 Marks (तीन अंक) 4X3= 12

Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
I	(i)	Accounting: Meaning & Objectives	-	-	-
	(ii)	Basic Accounting Terms	1	3	3
II	(iii)	Accounting Concepts and Principles	-	-	-
	(iv)	Accounting Standards	1	3	3
III	(v)	Process & Base of Accounting, Double Entry System	1	3	3
	(vi)	Accounting Equation			
	(vii)	Journal : Meaning & Objectives	-	-	-
IV	(viii)	Cashbook	-	-	-
	(ix)	Other Subsidiary Books	-	-	-
	(x)	Ledger	-	-	-
V	(xi)	Bank Reconciliation Statement	-	-	-
VI	(xii)	Trial Balance & Errors	-	-	-
	(xiii)	Rectification of Errors	-	-	-
VII	(xiv)	Depreciation	-	-	-
	(xv)	Reserve & Surpluses	-	-	-
VIII	(xvi)	Financial Statements-I	-	-	-
IX	(xvii)	Financial Statements-II	-	-	-
Case Study Question (Unit-VII, VIII & IX)			1	3	3
Total			4	3	<u>12</u>

Part-D (Long Answer Question) (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) 4 Marks (चार अंक) 1X4= 4

Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
VIII	(xvi)	Financial Statements-I	1	4	4
Total			1	4	<u>4</u>

Part-E (Long Answer Question) (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) 5 Marks (पांच अंक) 6X5= 30

Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units	No. of Questions	Maximum Marks	Total Marks
Units	Lesson/ Sub-units	Name of the Lesson/Sub-units			
I	(i)	Accounting: Meaning & Objectives	-	-	-
	(ii)	Basic Accounting Terms	-	-	-
II	(iii)	Accounting Concepts and Principles	-	-	-
	(iv)	Accounting Standards	-	-	-
III	(v)	Process & Base of Accounting, Double Entry System	-	-	-
	(vi)	Accounting Equation	-	-	-
	(vii)	Journal : Meaning & Objectives	1	5	5
IV	(viii)	Cashbook	1	5	5
	(ix)	Other Subsidiary Books	-	-	-
	(x)	Ledger	-	-	-
V	(xi)	Bank Reconciliation Statement	1	5	5

VI	(xii)	Trial Balance & Errors	-	-	-
	(xiii)	Rectification of Errors	1	5	5
VII	(xiv)	Depreciation	1	5	5
	(xv)	Reserve & Surpluses	-	-	-
VIII	(xvi)	Financial Statements-I	-	-	-
IX	(xvii)	Financial Statements-II	1	5	5
Total			6	5	<u>30</u>
Grand Total of Part-A, Part-B, Part-C, Part-D & Part-E= 16+18+12+4+30= 80					